



Gorani Industries Ltd.

CIN : L28121MP1995PLC009170
GSTIN : 23AAACG6274B1Z2

Regd. Office :

Plot No. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Industrial Area,
Indore - 452 015 (M.P.) India

Admin. Office :

1st Floor, B 15, Pologround, Indore - 452 015 (M.P.)
Phone : 0731-2723201-3 | Fax No. : 0731-2723200
E-mail : gorani.industries@yahoo.com
Website : www.goraniindustries.com

06th February, 2019
Indore

To
The BSE Limited
The Corporate Relationship Department,
The Bombay Stock Exchange Mumbai
Pheeroj Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub.:- Submission of publications of newspaper advertisement

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published newspaper advertisement with respect to the Financial Statements for the quarter ended on 31st December, 2018 in the newspapers viz.- Free press, (English) and Choutha Sansar (Hindi) on 06th February, 2019.

Please find enclosed herewith copies of the aforesaid publications.

Please take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

for **Gorani Industries Limited**

Anil Gorani
(Holding DIN: 00055540)
(Whole-time Director)

Encls: As above.

Teltumbde won't be arrested till Feb 12: Pune police to HC

AGENCIES
Mumbai

The Pune Police told the Bombay High Court on Tuesday that it will not arrest activist Anand Teltumbde till February 12 midnight, even as the Dalit scholar termed the case a ploy to “humiliate” and “harass” him. The statement was made by the state’s counsel Aruna Pai on behalf of the Pune Police before a bench of Justice N W Sambre. The court was hearing an application filed by Teltumbde seeking anticipatory bail in the Elgar Parishad-Koregaon

Bhima case. Teltumbde is an accused in the case, which was filed following violent clashes at Koregaon-Bhima village near Pune on January 1, 2018.

He was booked on several charges, including sections under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Justice Sambre on Tuesday directed Pai to give an oral undertaking as a pre-condition for securing time to file an affidavit opposing Teltumbde’s plea.

The court said it would hear the plea on February 11. Teltumbde later termed the police’s case against

him and several other social activists as “harassment” and a ploy to “humiliate” them. “The police does not want to investigate the case... they just want to harass and humiliate us. I have been cooperating with the investigation since long. I don’t understand why this sudden move to arrest me,” he told reporters here.

Teltumbde was arrested last week after a Pune court rejected his pre-arrest bail plea. He was, however, ordered to be released a day later on Saturday (February 2) following a court order. He approached the

high court on Monday seeking anticipatory bail and said he had no role to play in the case.

When the plea was heard on Tuesday by Justice Sambre, advocate Pai sought for it to be dismissed on the ground that UAPA Section 43D(4) bars granting anticipatory bail to an accused. Pai also pointed out that earlier last year, Teltumbde, who the police claim has Maoist links, filed another plea in the high court denying all charges against him and urged the court to quash the FIR against him in the case.

Using Aadhaar biometrics to identify bodies not feasible technologically, legally: UIDAI to HC

AGENCIES
New Delhi

The Unique Identification Authority of India (UIDAI) on Tuesday told the Delhi High Court that it was not legally and technologically feasible to use Aadhaar biometrics for forensic purposes like identification of dead persons.

The UIDAI told a bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice V K Rao that using Aadhaar biometrics to identify bodies would be contrary to the Aadhaar Act. The authority, represented by advocate Zoheb Hossain, further claimed that even the Supreme Court in a verdict last year had held that the biometrics were not to be used for any other purpose than those stipulated in the Act.

The UIDAI has contended that the Aadhaar Act was enacted to provide good governance as well as an efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits, services and social schemes.

TV actor Shilpa Shinde joins Cong, snubs MNS

AGENCIES
Mumbai

Television actor Shilpa Shinde on Tuesday joined the Congress in the presence of its Mumbai unit chief Sanjay Nirupam. The actor, who was a winner of the 11th season of the reality show Bigg Boss, told reporters at the induction function that she wanted Congress chief Rahul Gandhi to be the next Prime Minister.

“The Congress party has run the country for ages. This is why I decided to join it. Today, the country is in dire need of change and only the Congress can bring about this change,” she said. On a query about the Maharashtra Navnirman Sena, which had supported her during her spat with the makers of a televi-

sion serial after she was replaced in it, Shinde said the Raj Thackeray-led party focused only on “Marathi-speaking” people.

“The Congress does not look at any caste or religion while extending a helping hand to those in need. However, the MNS only focuses on Marathi-speaking people. When I needed help, the MNS gave a Marathi angle to my plight,” she claimed.

She added that she was keen to contest elections, but did not specify if it was for the Lok Sabha or the state Assembly, both of which are scheduled for this year. Nirupam said the country was unhappy with the current dispensation and people who believed in the core principles of the country were joining the Congress.

Continued from page 1

Nath mulls LS poll route to win...

To come out of this situation and to stay away from threats of the independent MLAs and supporting parties, Congress is constantly working on getting absolute majority. It is learnt that a BJP MLA is willing to join Congress and he is in constant touch with a top Congress leader. Congress may field this MLA from either Jabalpur or Khajuraho Lok Sabha constituency. The MLAs is also asked to work on bringing other BJP MLAs into Congress’ fold.

Congress is also eying on one more BJP MLA from Mahakaulash region. The said MLA may also be given ticket from Congress in the upcoming Lok Sabha polls and has discussed with an influential Congress leader about his joining the party.

It is uncertain as to which party would come to power at the Centre after Lok Sabha polls. BJP leaders have been warning that they would not allow Congress to run the government in the state after Lok Sabha polls. If BJP comes to power at the Centre, it would not be easy for the Congress to run the government in the state. Keeping this in mind, Congress leaders are busy in preparing strategy to gain majority in the House.

MYH leads the pack, treats ...

We hope to receive claim amount soon,” Dr Thakur said. According to employees of hospital, the number of patients could have increased more but it is taking more time in getting approval for the claim than the time actually required.

NSA invoked against three...

District collector, Vishesh Garhpale, slapped the provisions of the NSA against them, Singore said.

“On Monday, they were produced before a local court, which sentenced them to jail under the NSA and other relevant sections of the IPC,” he added.

According to police, Nadeem was earlier also involved in slaughtering of cows and was wanted in the case.

India, Moncaco should prioritise renewable energy, climate change for mutual benefit: Prez

AGENCIES
New Delhi

Asserting that India-Monaco ties are doing well, President Ram Nath Kovind on Tuesday said the two nations need to prioritise areas like renewable energy and climate change for mutual benefit, according to an official statement.

Welcoming Prince Albert II of Monaco, who had called on Kovind at Rashtrapati Bhavan, the President said that India and Monaco have always enjoyed a relationship of trust, friendship and mutually beneficial cooperation. The current visit imparts a strong



President Ram Nath Kovind shakes hands with Monaco’s reigning monarch Prince Albert II during a meeting at Rashtrapati Bhavan in New Delhi on Tuesday PTI

impetus towards taking the relationship to newer heights, he said.

The President said that India-Monaco ties are doing well. “However, there is scope to do a lot more together. On issues such as

renewable energy, climate change and the environment, there is a strong meeting of minds between us. We must prioritise these areas for bilateral co-operation,” Kovind was quoted as having said in the statement issued by his office.

The President said India is the fastest growing major economy in the world. “Monaco’s technology and investment companies can significantly benefit from the Indian growth story,” Kovind said. Later, the President hosted a lunch for the Prince and his accompanying delegation.

National Women’s Party to contest all 26 LS seats in Gujarat

AGENCIES
Ahmedabad

Newly-formed National Women’s Party (NWP) on Tuesday announced to contest all the 26 Lok Sabha seats in Gujarat in upcoming elections. Since the party’s main objective is to get 50 per cent reservation for women in Parliament, it will field women candidates on 13 seats and may field male nominees on the rest seats in Gujarat, NWP chairperson Dr. Swetha Shetty said.

Shetty was here to launch Ahmedabad unit of the party and appoint office bearers for Gujarat. “We demand nothing less than 50 per cent reservation for women in Parliament. That is why we will give half of the tickets, that is 13, to only women candidates. Rest 13 Lok Sabha seats are open for male candidates

having similar ideologies like ours,” she told reporters.

Shetty said the NWP would contest 283 Lok Sabha seats across the country. She said the NWP was launched in December last year in Delhi, and has a member base of over 3 lakh. The doctor-turned-activist said the NWP is already registered with the Election Commission (EC), but yet to get a party symbol.

Shetty attributed “poor participation of women in Parliament, assemblies and local bodies” for the issues like child marriage, harassment at workplace etc. “Patriarchal society has ensured that women remain under-represented in civic bodies and do not have key decision making powers. We want to create a platform to give voice to the women through this party,” she said.

PRAKASH BHANDARI
Jaipur

Ruling Congress and BJP are trying hard to find suitable candidates to contest the Lok Sabha elections in the state. The ruling Congress which has a mere of 100 members in the House and is still one short of a majority is unable to field the sitting MLA for the upcoming election as it requires the number for running its show as a government.

BJP in the last 2014 elections won all the 25 seats, but Congress in the by-elections won the two seats at Ajmer and Alwar because of the deaths of two BJP MPs. The Ajmer seat has fallen vacant again as the sitting member from Ajmer, Raghu Sharma has become a member of assembly and is holding the position of

a Cabinet minister of health.

Congress is now looking for new faces to contest the election and these faces include those who lost the recent assembly elections. The former leader of the opposition, Rameshwar Dudi, who lost recent elections from Nokha in Bikaner district is seeking a ticket to contest from Churu in a seat which is held by BJP. Congress is upbeat as it won the recent countermanded election at Ramgarh and it

feels that the people are still backing them.

Change of Name

I **SUNIL KUMAR LAKHWANI** Here by Declare That I have change My name as **SUNIL LAKHWANI** so, from now and In future I will be known by my new name.

SUNIL LAKHWANI
Add:-1019, KHATIWALA TANK, INDORE (M.P.)

Change of Name

I **ROSHNI SALGIYA** Hereby Declare That I have change My name as **ROSHNI SALGIA** so, from now and In future I will be known by my new name.

ROSHNI SALGIA
Add:-HOUSE NO. 72, KANYAKUBJ NAGAR NEAR VIDHYADHAM MANDIR AIRPORT ROAD, INDORE (M.P.)

Change of Name

I **RANJIT KAUR JUNEJA** Here by Declare That after marriage I have change My name as **RANJEET KAUR SALUJA W/O DARA SINGH SALUJA** so, from now and In future I will be known by my new name.

RANJEET KAUR SALUJA
W/O DARA SINGH SALUJA
Add:-1415, SUDAMA NAGAR SECTOR-D, INDORE (M.P.)452009

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व में मेरा नाम **Prteece Dahiya** था, जो की शादी के बाद बदल कर **Preeti Parmar** W/o **Narendra Parmar** हो गया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम **Preeti Parmar** W/o **Narendra Parmar** से जाना एवं पहचाना जावे।

पता - **Preeti Parmar** W/o **Narendra Parmar**
109, M T Cloth Market, Indore



Ranjit SECURITIES LTD.

CIN : L67120MP1994PLC008680
Regd. Off. : 317-318, Transport Nagar, Scheme No. 44, INDORE-14
Phone : 0731-4058447, 4293747, Fax : 0731-2366558
Email: compliance@ranjitsecurities.com, Website: www.ranjitsecurities.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. Notice is hereby given that the 05/2018-19 Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, 14th February, 2019, at 02:00 PM, at 317-318, Transport Nagar, Scheme No. 44, Indore-452 014 (M.P.)** to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2018.

For further details investors may also visit the website of the company (www.ranjitsecurities.com) and Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com)

On behalf of the Board
Sd/-
Durga Ratnani
Date: 05.02.2019
(Company Secretary cum Compliance Officer)



Government of India

भारत सरकार

Office of the Commissioner (Audit Indore)

Central Tax (CGST) & Central Excise & Service Tax

5th Floor, 'Omega Tower', 32, Mechanic Nagar Extn. IDA Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore - 452010

E-TENDER

INVITATION FOR OFFER OF HIRING OF HOUSEKEEPING SERVICE PROVIDER INDORE

The Commissioner (Audit), CGST & Central Excise, Audit-Indore invites offers for Hiring of Housekeeping service in Indore City. The tender has been published and may be downloaded from Central Public Procurement Portal (CPPP) website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. The interested bidders are requested to go through the above link and kindly register themselves to apply for the tender. The details of the tender for downloading are given below :-

Tender ID	2019_DREV_439472_1
Tender Title	House Keeping of Office Premises
e-Publish Date	04.02.2019

Sd/- COMMISSIONER

GORANI INDUSTRIES LIMITED

Regd. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Indore (M.P.), CIN: L28121MP1995PLC009170
website: www.goraniindustries.com, email id: gorani.industries@yahoo.com
Telephone No: 0731-2723201 Fax: 2723200

Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2018

(RS. IN LAKHS except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended
		31.12.2018	31.12.2017	
1	Total Income from Operations	621.70	711.60	1925.51
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	27.19	27.65	87.15
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	27.19	27.65	87.15
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20.11	27.65	43.08
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/loss for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	20.11	27.65	43.08
6	Basic Earnings Per Share	487.31	566.13	487.31
7	Earnings per share (in Rs.) of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations)	0.41	0.51	0.86
8	(a) Basic (ii) Diluted			

Note:

A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's Website www.goraniindustries.com.

B. The impact on net profit/(Loss), total comprehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note: N.A.

C. # - Exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.

D. During the current quarter the company has forfeited 562900 equity shares in the Board meeting held on 05.10.2018, due to non-payment of allotment money. Resultantly, EPS figure of quarter and Nine months ended on 31/12/2018 are not comparable with other periods.

Anil Gorani
Whole Time Director
DIN: 00055540
Place: Indore
Date: 05-02-2019

For & On Behalf of the Board
Sanjay Gorani
Managing Director
DIN:00055531



Khaitan Chemicals & Fertilizers Limited

CIN No. L24219MP1982PLC004937
Regd. Office: A.B. Road, Village Nimrani, Tehsil Kasrawad, Dist. Khargone-451569 (M.P.)
Ph.: 0731-4237926, Fax: 0731-4753655, E-mail: khaitanchemfert@gmail.com, website: www.khaitanchemfert.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter / Nine Months Ended December 31, 2018

(Amount ₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		
		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018
1	Total Income from Operations	8,117.74	11,881.52	9,139.62	28,473.93	26,413.04	35,628.77
2	Net Profit for the period (before Tax & Exceptional items)	113.51	554.08	67.51	1,122.62	238.28	242.01
3	Net Profit for the period after tax & Exceptional items)	158.50	285.74	30.22	748.85	71.84	164.22
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	162.90	290.03	30.22	762.04	70.22	180.30
5	Equity Share Capital	969.89	969.89	969.89	969.89	969.89	969.89
	Other Equity (Reserves)	-	-	-	-	-	12,062.82
6	Earnings Per Share of ₹1/- each:						
	Basic and diluted	0.163	0.295	0.031	0.772	0.074	0.169
7	Profit before Depreciation and Tax	333.34	770.47	288.68	1,775.90	890.01	1,112.66

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months financial results filed with the stock Exchanges Under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and hosted on the company's website at (www.khaitanchemfert.com)

By order of the board
for **Khaitan Chemicals and Fertilizers Limited**
Sd/-
(SHAILESH KHAITAN) Chairman & Managing Director
DIN : 00041247

Place: Gurugram
Date : February 5, 2019

हरदा, (निष्प)। नगर पालिका परिषद के वातानुकूलित अभ्यक्ष में परिषद की बैठक की कार्यवाही हरदा नगर पालिका अध्यक्ष सुनें जैन के द्वारा राष्ट्रगान एवं मण्डपदेव गान से की गई। बैठक की कार्यवाही के दौरान पवित्र सत्य किण्व, अग्रवाल, अनिता राठौर, लक्ष्मी शर्मा, वैपना पण्डे, मन्ता गुप्ता, राधिका चोलेकर, विमर्श के बाद हरदा नगर पालिका अध्यक्ष सुनें जैन द्वारा परिषद विश्व क्रीडाक 23 में नगर की वातावात व्यवस्था की हटिगक पर हुए बताया कि नगर के शासकीय स्तर स्टेट नेताजी सुभाषचंद्र बोस से स्टेट के बाहर से हो से बसे संभाषक अने वातनी का आगमनक कर रहे है। जिससे पाष्यिजी कठिनाई का सामना

तदुपस्थापित विस्तृत लांछन शास्त्रेण येषां ज्ञानं को लोकर बाधना गम्य किं निजं दुर्गो ह्योपदी के कष्टा ये येष विस्तृत लांछनं दत्तं है। उनकी सुरक्षा को देखी प्रक्रिया के अनुसार लांछन शास्त्रिण का कार्य कायं कायना जा रहा है। नौलाभि का आगम को लोकर जानवरी देते हुये कायना कि नगर पालिका नौलाभि को आनित के जतने के अनुसार ही कार्य करती है। विनियम है उससे हटकर कुछ भी नहीं हो सकता। बैठक में विनियम पर क्रमशः चर्चा एवं विस्तृत विवरण

[illegible]

र अपने
पुलिस
माइकल
ल गई।
थाने में
कि पूर्व
दे चके

खंडवा
समग्र ग्राम
मारी पर
पिछले
गैरा देख
धायल
प्राप्त
देखें चार

बजे उनके साथ यह हादसा हुआ।
बेटे की शादी तैयारी में जुटे थे
एसआई - गौरतलब हो कि बेटे की शादी के
चलते एसआई अग्रवाल 15 दिन के
अनकाशा लेकर शादी की तैयारियों में जुटे थे।
जिला अस्पताल के डॉक्टरों और परिजनों के
अनुसार उनकी हालत अब ख़तरों से बाहर
आई है। शादी के अग्रवाल को कमर पर एक
गोली मारी गई, जो कि उनके कमरे के बेडरूम से

मामले की जांच में जुटी पुलिस-
घटना की जानकारी लगते ही मामले की
जांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र
तारपोकरी भी हॉस्पिटल पहुंचे जहां उन्होंने
घटना की जानकारी लेते हुए बताया कि
बुद्धानुभव में परस्य एसआर अखावा
स्मिथ लॉहिन स्थित अनाथ निवास से बंदे
को शादी की प्रक्रिया बॉन्डे निकाले थे।
हरसद से वापस पुनः लौटते वक्त उन्होंने
एक ढाबे पर खाना खाया जिसके बाद
वापस लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने ग्राम
खरुर के समीप उभरे गोली मारने की कोशिश
की। गंभीरता से लेते हुए घटना के सभी बिन्दुओं
की जांच की जा रही है।

क की शुरुआत में अनेक चर्चा



करना पड़ रहा है। जिस पर परिषद आरटीओ ईदीर, भोपाल, होशंगाबाद, देवास उज्जैन, आदि के परमिट निस्त करने की कार्यवाही करेगी। तदनुषंग परिषद के विषयो पर क्रमशः चर्चा के बाद विषय क्रमांक 51 पर जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित कालोनियो के रिक पड़े भूखंडों में गंदे पानी भर रहने की समस्या को खत्म

गर्भ पालिंका द्वारा अपनी कार्यवाही की गई होगी ने अपना प्लान्टो को सुरक्षित कर लिया। गी में शरीर है जिसमें यं पानी पानी एकलित है। यद्यपि यं पानी पालिंका द्वारा ने नोटिस देना है कि कारखाने के पक्षता यं यं पानी अपना प्लान्ट साफ पालिंका द्वारा रिक भूखंडों को राजसात किये जा रहेगी। और नगर पालिंका के खर्च पर न जावेगा। ताकि नगरिकों के स्वस्थ रहें हो। क्योंकि रिक पड़े भूखंडों में यं पानी अनेक प्रकार के संक्रामक रोग एवं अनेक रोग है।

कार्यवाही में परिषद के विषयो को क्रमशः पराम पर परिषद सख्यो द्वारा सर्वसम्मति से पालिंका परिषद द्वारा दिनांक 5 फरवरी को नगर विकास के कुल 73 विषयो पर परिषद गई है।

खंडवा, हरदा, इंदौर, भोपाल सहित प्रदेशभर से आए खले परिवार के सदस्य कुलदेवता भीलटदेव का पूजन कर ध्वजा नारियल चढ़ाए, कड़ाव प्रसाद किया

**कुलदेवी श्यामलांगी माता मंदिर निर्माण
के लिए समिति का भी गठन**

खडवा/हवेली (गिर) : खले परिवार को सदस्यो को एकजुट करते हुए इस सभ में कुलदेवता भीरुदेवता को सामूहिक पूजन और महाअर्चना कर मंदिर में ध्वजा और नारियल चढ़वने के पश्चात कड़ाह प्रसाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डेहरे, भोपाल, खडवा/हवेली सहित प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर रहने वाले खले परिवार के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर कुलदेवी की सय्यासीगोत्री के मंदिर निर्माण पर सभ में सयास मिश्रक चाँदी की और मंदिर निर्माण समिति का नतन भी किया गया। इस समिति के द्वारा जल्द ही कुलदेवी के मंदिर निर्माण को प्रगति प्राप्त कर दी जाएगी। जनार्दन खले, सजय खले, अशोक खले (डेहरे), उदयशंकर खले (हरदर), कमल खले (छहरी) वगैरे ने बताया कि कुलदेवता भीरुदेवता के अतिशय प्रसाद का यह लगातार दूसरा सभ था। मिथवा/मालवा स्थित मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए कृष्ण शर्मा ने तैयारी की जाकर अर्चना अलग स्थानों पर रहने वाले खले परिवारों के सदस्यों को सुविधा प्रदान गयी।

कार्यक्रम में ईदौर, हरदा, खंडवा, भोपाल सहित अन्य स्थानों पर रहने वाले खले परिवार के डेढ़ सौ अधिक सदस्य शामिल हुए, जिनमें डॉनर उपनाम से भी कुछ लोग मौजूद थे। पूर्व से तय कार्यक्रम की रूपरेखा अनुसार तय समय पर कार्यक्रम का शुरु हुआ। संजय खले ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी गोविंद शर्मा को सौंपी।

मंच पर परिचय, जताई प्रसन्नता- भीलटदेव मंदिर परिसर में आयोजित समारोह की शुरुआत में अलग-अलग स्थानों से आया संचालक के सभी सदस्यों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया और सभी सदस्यों से एक साथ मिलकर प्रसन्नता जताते हुए कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी। मौजूद सदस्यों का कनक था कि इस तरह के आयोजन हमेशा होने चाहिए। कार्यक्रम में सभी परिवार की बहन-बेटियाँ और दाम्पत्य भी शामिल हुए।

सभी में दिखा उत्साह-कार्यक्रम में अपने आपको अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच पाकर सभी में चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई दी और उनमें इस बात का उत्साह था कि कुलदेवता के पूजन आरती के साथ ही परिवार के साथ मिलकर भोजन प्रसादी ले रहे हैं। सभी ने मंच के अलावा भी एक-दूसरे से मिलकर अपने परिचय दिया।

महाआरती और नर्मदाष्टक का किया पाठ- मंच पर परिचय के पश्चात खले परिवार के सभी सदस्य कुलदेवता के पूजन के लिए एक साथ निकले। इस दौरान सभी ने भीलदेव के जयकारे लगाए। मंदिर में मांगीलालजी खले (रिश्ते वाले) ने भीलदेव का पूजन करवाया और उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा भीलदेव का महाआरती का गी। इसके बाद मंदिर में हो नर्मदाष्टक का पाठ किया गया।

कुलदेवी के मंदिर का प्रस्ताव पर सभी ने दी सहमति- भीलटदेवदेव
के पूजन और महाआरती पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
राजेंद्र खले, अशोक खले, संजय खले सहित अन्य ने खले
परिवार के सदस्यों के बीच कुलदेवी मां श्यामलांगी देवी के मंदिर

निर्माण के प्रस्ताव की रूपरेखा रखी और सभी से इसके लिए सहमति मांगी। सभी ने एक स्वर में इसे स्वीकारा और मंदिर के निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग करने की बात करते हुए अपनी सहमति दी।

मंदिर निर्माण समिति -कुलदेवी के मंदिर निर्माण के लिए खले परिवार के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृति और सहयोग किए जाने के बाद मंदिर निर्माण समिति भी गठित की गई। इस समिति का नाम रखा गया कि श्यामनाथी देवी मंदिर निर्माण समिति। समिति के अध्यक्ष के रूप में गोविंद शर्मा, खंडवा (सेवानिवृत्त अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र), सचिव उदयशंकर खले, हरदा (स्वयं आभूषण व्यवसायी) सहित अन्य 11 सदस्यों को शामिल किया गया।

तत्काल जमा हुई राशि - कुदरेवी माता के मॉरिद निमंत्रण के लिए तत्काल की खले परिणाम के सदस्यों ने राशि भी जमा करा दी। वहीं प्रीति माता एक निष्ठा राशि देने की बात भी कहा। यहाँ खले परिणाम के सभी सदस्यों ने मॉरिद के लिए हर प्रकार की मदद देने की बात कही। समिति का गठन करने के बाद वह भी बताया गया कि यूँक सभी के लिए बैंक में जाकर मॉरिद निमणों की सहयोग राशि जमा करना संभव नहीं है। इसलिए जल्दी ही एक बैंक खाता खोलकर सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाएगी और उस पर सुविधा अनुसार सहयोग अंतिमजाली भी जमा कर सकेंगे। इस पर सभी ने अपनी सहमति दी।

भजन और गीतों की प्रस्तुति दी - कार्यक्रम में जब मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने की बात कही गई तो दूर-दूर से आए खले परिवार की महिला सदस्यों के साथ ही बहन-बेटियों ने भजनों और गीतों की प्रस्तुति दी। जिसकी सभी ने प्रशंसा की।

संक्रांति उत्सव मनाया -इस अवसर पर मकर संक्रांति पर्व भी मनाया गया। सभी महिलाओं को शर्मा परिवार (खंडवा) द्वारा हल्दी-कुमकुम कर उपहार दिए गए। कार्यक्रम के लिए गोविंद शर्मा की पुत्रध्वज द्वारा विदेश में रहते हुए भी कुलदेवी और कुलदेवता के प्रति श्रद्धा का भाव पेश करते हुए समस्त सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई।

12 जनवरी 2020 को अगला कार्यक्रम-कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार मानते हुए संजय खले बताया कि इस आयोजन में उपस्थित सभी सदस्यों का सहयोग रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगला कार्यक्रम 12 जनवरी 2020 को आयोजित किया जाएगा।

टू-व्हीलर चालकों पर सख्ती, भारी वाहनों चालकों पर मेहरबानी क्यों?

खंडवा, (निप्र). यातायात सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के कुछ घंटे बाद ही दुर्घटना में तीन को मौत हो जाना कई सवाल को खड़े कर रही है। लोग अब मोशल साइट पर अपने विचार रख रहे हैं। शहर में अंटो डील संचालकों के द्वारा सहर्षों पर कब्जा कर अपनी दुकानदारों चलोने को लेकर लोग अपना आक्रोश तो निकाल रहे हैं साथ ही शहर में बिगड़न हुआ यातायात को लेकर शेषवासियों पर सवालियां की आशा भी कर रहे हैं। यातायात विभाग की आगामी कार्रवाई में रिस्क।



स्कुली बच्चों को ढोने वाले ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई होती है जो प्रभावशाली एवं अच्छी है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ हातायत विमान शहर के चौराहे पर खड़े होकर यात्रियों को चालकों पर नियम अंगरंग पालना कार्रवाई करते रहता है। ड.बीलर चालकों ने कई बार विरोध दर्ज करवाया कि हम अगर नियम तोड़ रहे हैं तो आप हम पर कार्रवाई करें लेकिन जो भारी वाहन ट्रांसपोर्ट वालों के गली मोहल्लों में घुस रहे हैं उन पर कार्रवाई कब करोगे? गौरतलब हो कि सिर्फ कोतवाली मोस्ट्र धाना,

निपटार थाना, यातायात थाने के सामने से आटो चालक क्षमता से अधिक करियाँ भरकर निकल रहे हैं, वहीं गाँववाली थाने के सामने से ही भारी डंपर निकल रहे हैं। इक्का-दुक्का वाहनों पर भी थाना कार्रवाई कर दी जाती है, बाकी के गाँव पर सिर्फ टू-व्हीलर चालकों पर ही थाना कार्रवाई का कहर चलता रहता है। इसी से अदालत लगाया जा सकता है। यातायात विभाग अपने कर्तव्य को ठीक-ठाक किस तरह से कर रहा है।

GORANI INDUSTRIES LIMITED				
Unit C-23, Sector 3, Gurgaon Road, Gurgaon (Haryana) India - 122015				
website: www.goraniindustries.com, e-mail: gori@goraniindustries@yahoo.com				
Telephone No. 0129-7232001 Fax No. 0129-7232002				
Unaudited Financial Results for the Quarter and Year ended First December, 2008				
IN IN Lakhs, unless stated otherwise				
S.No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2008	Year ended 31.12.2008	Year ended 31.12.2007
1	Total Income from Operations	501.12 (2008)	2152.20 (2008)	2112.00 (2007)
2	Less: Depreciation	(27.18)	(107.85)	(107.85)
3	Less: Amortisation	(0.00)	(0.00)	(0.00)
4	Less: Goodwill Impairment	(0.00)	(0.00)	(0.00)
5	Less: Financial Assets Impairment	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	Less: Financial Liabilities Impairment	(0.00)	(0.00)	(0.00)
7	Less: Exceptional and Extraordinary Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
8	Less: Exceptional and Extraordinary Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
9	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
10	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
11	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
12	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
13	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
14	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
15	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
16	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
17	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
18	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
19	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
20	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
21	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
22	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
23	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
24	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
25	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
26	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
27	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
28	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
29	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
30	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
31	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
32	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
33	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
34	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
35	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
36	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
37	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
38	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
39	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
40	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
41	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
42	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
43	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
44	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
45	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
46	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
47	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
48	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
49	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
50	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
51	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
52	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
53	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
54	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
55	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
56	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
57	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
58	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
59	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
60	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
61	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
62	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
63	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
64	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
65	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
66	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
67	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
68	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
69	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
70	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
71	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
72	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
73	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
74	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
75	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
76	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
77	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
78	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
79	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
80	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
81	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
82	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
83	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
84	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
85	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
86	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
87	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
88	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
89	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
90	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
91	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
92	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
93	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
94	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
95	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
96	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
97	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
98	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
99	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
100	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
101	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
102	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
103	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
104	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
105	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
106	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
107	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
108	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
109	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
110	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
111	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
112	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
113	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
114	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
115	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
116	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
117	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
118	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
119	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
120	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
121	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
122	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
123	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
124	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
125	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
126	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
127	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
128	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
129	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
130	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
131	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
132	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
133	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
134	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
135	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
136	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
137	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
138	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
139	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
140	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
141	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
142	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
143	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
144	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
145	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
146	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
147	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
148	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
149	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
150	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
151	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
152	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
153	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
154	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
155	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
156	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
157	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
158	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
159	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
160	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
161	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
162	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
163	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
164	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
165	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
166	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
167	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
168	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
169	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
170	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
171	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
172	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
173	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
174	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
175	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
176	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
177	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
178	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
179	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
180	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
181	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
182	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
183	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
184	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
185	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
186	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
187	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
188	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
189	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
190	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
191	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
192	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
193	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
194	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
195	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
196	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
197	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
198	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
199	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
200	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
201	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
202	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
203	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
204	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
205	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
206	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
207	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
208	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
209	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
210	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
211	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
212	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
213	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
214	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
215	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
216	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
217	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
218	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
219	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
220	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
221	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
222	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
223	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
224	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
225	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
226	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
227	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
228	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
229	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
230	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
231	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
232	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
233	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
234	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
235	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
236	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
237	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
238	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
239	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
240	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
241	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
242	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
243	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
244	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
245	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
246	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
247	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
248	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
249	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
250	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
251	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
252	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)	(0.00)
253	Less: Other Income	(0.00)	(0.00)	(0.00)
254	Less: Other Expenses	(0.00)	(0.00)</	

A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available at the Investor Education & Protection Fund website and the Company's Website www.granuladistics.com.

B. Impact on net profit/(loss), total comprehensive income or other financial performance indicators as per Indian Accounting Standards issued by Institute of Cost Accountants of India (I.C.A.I.).

C. If exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.

During the current quarter the company has forfeited 56,59,000 equity shares in the Board meeting held on 05.10.2018, due to non-payment of allotment money. Realizability, EPS figure of current quarter and Nine months ended 31/12/2017 are not comparable with earlier periods.

Place:	Singapore
Date:	For and On Behalf of the Board
Place:	(Signature)
Name:	Managing Director

कार्यालय संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर
क्र/977/INDLP-5167/19/नवम्बर/2019 इंदौर, दिनांक 4.2.20

[illegible]

<div>  Khaiatan Chemicals & Fertilizers Limited </div>									
CIN No. L24219MP1982PLC004937									
Regd. Office: A.B. Road, Village Nimda, Tehsil Kasarwad, Dist. Khargone-451569 (M.P.)									
Ph: 071-4237626, Fax: 071-4735655, E-mail: khaikhanchemf@gmail.com, website: www.khaikhanchemf.com									
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter / Nine Months Ended December 31, 2018									
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended			(Amount in Lacs)	
		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017	Year Ended	Year Ended
		Unaudited			Unaudited			Audited	Audited
1	Total Income from Operations	8,117.74	11,881.52	9,139.62	28,473.93	26,413.04		35,628.77	
2	Net Profit for the period (Before Tax & Extraordinary Items)	113.51	554.98	67.51	1,122.62	238.28		242.01	
3	Net Profit for the period after tax & Extraordinary Items	158.50	285.74	30.22	748.85	71.84		164.22	
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	162.90	290.03	30.22	762.04	70.22		160.30	
5	Equity Share Capital	969.89	969.89	969.89	969.89	969.89		969.89	
6	Other Equity (Reserves)	-	-	-	-	-		-	12,062.82
7	Earnings Per Share of ₹/- each:								
8	Basic and diluted	0.163	0.295	0.031	0.772	0.074		0.1169	
9	Profit before Depreciation and Tax	333.34	726.47	288.58	1,775.90	890.01		1,129.66	